



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9 — अप्रैल 15, 2011 (चैत्र 19, 1933)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 9 — APRIL 15, 2011 (CHAITRA 19, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	361	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	307	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	5	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	747	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1039
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 851
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 401
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	361	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	307	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	747	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1039
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	851
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	401
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2011

संकल्प

संख्या ई-11015/01/2009-हिन्दी : गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20015/45/87-रा.भा.(क-2) दिनांक 15 मार्च, 1988 के अनुसरण में, भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। समिति की संरचना और कार्य, आदि निम्न प्रकार होंगे :-

I. संरचना

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. वाणिज्य और उद्योग मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

II. सरकारी सदस्य

क. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 3. सचिव | सदस्य |
| 4. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार | सदस्य |
| 5. संयुक्त सचिव (प्रभारी राजभाषा) | सदस्य-सचिव |

ख. राजभाषा विभाग

- | | |
|------------------|-------|
| 6. सचिव, | सदस्य |
| राजभाषा विभाग, | |
| 7. संयुक्त सचिव, | सदस्य |
| राजभाषा विभाग | |

ग. सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और संगठन

- | | |
|---|-------|
| 8. नमक आयुक्त, जयपुर | सदस्य |
| 9. आर्थिक सलाहकार, नई दिल्ली | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, टैरिफ आयोग, नई दिल्ली | सदस्य |
| 11. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर | सदस्य |
| 12. महानियंत्रक, पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री, मुंबई | सदस्य |
| 13. निदेशक, केन्द्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूर | सदस्य |
| 14. निदेशक, केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर | सदस्य |
| 15. निदेशक, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, थाणे | सदस्य |

- | | | |
|-----|---|-------|
| 16. | महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद,
बल्लभगढ़, हरियाणा | सदस्य |
| 17. | कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद | सदस्य |
| 18. | डिप्टी चीफ, राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद्,
नई दिल्ली। | सदस्य |
| 19. | महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली | सदस्य |
| 20. | महासचिव, भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली | सदस्य |
| 21. | मुख्य लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली | सदस्य |

III. गैर-सरकारी सदस्य

क. लोक सभा सदस्य

- | | | |
|-----|------------------------|-------|
| 22. | श्री पी.एल. पुनिया | सदस्य |
| 23. | श्रीमती सुष्मिता बाउरी | सदस्य |

ख. राज्य सभा सदस्य

- | | | |
|-----|-------------------------|-------|
| 24. | श्री बी.एस. जनानादेसीकन | सदस्य |
| 25. | श्री भरतसिंह पी. परमार | सदस्य |

ग. संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

- | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 26. | श्री अशोक अर्गल, सांसद (लोक सभा) | सदस्य |
| 27. | डॉ. राम प्रकाश, सांसद (राज्य सभा) | सदस्य |

घ. अखिल भारतीय स्तर के हिन्दी स्वैच्छिक संगठनों, आदि के प्रतिनिधि

- | | | |
|-----|--|-------|
| 28. | श्री महेश नारायण,
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली | सदस्य |
| 29. | डा. पद्माकर पाण्डे,
नागरी प्रचारिणी सभा, नई दिल्ली-110067 | सदस्य |

IV. वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा नामांकित सदस्य

- | | | |
|-----|--|-------|
| 30. | श्री सुशील दोषी,
हिन्दी कमेंटेटर, इंदौर (मध्य प्रदेश) | सदस्य |
| 31. | डा. केशव पांडे,
शिक्षाविद व पत्रकार, ग्वालियर | सदस्य |
| 32. | श्री कृष्ण मोहन सिंह,
पत्रकार, नई दिल्ली | सदस्य |
| 33. | प्रो. अशोक चक्रधर,
उपाध्यक्ष, हिन्दी अकादमी, दिल्ली | सदस्य |

V. राजभाषा विभाग द्वारा नामांकित सदस्य :-

- | | | |
|-----|---|-------|
| 34. | इंजी. बृजेश पाण्डेय,
गांव-जितवारपुर, पोस्ट-पिपरा, थाना-गोविंदगंज, जिला-पूर्वी चंपारण (बिहार) | सदस्य |
|-----|---|-------|

35. प्रो. रोशनी थामस, सदस्य
टीसी-4/1901(1), पंडित कालोनी, कोवदीयार, त्रिवेन्द्रम-3 (केरल)
36. श्री अरुण उपाध्याय, सदस्य
503, साई शुभम, गीता नगर फेज-7,
मीरा रोड, (ईस्ट) थाणे-401107 (महाराष्ट्र)

2. समिति के कार्य

इस समिति का कार्य औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देना होगा।

3. समिति का कार्यकाल

- समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा, परन्तु:-
- (क) जो सांसद इस समिति के सदस्य हैं, वे सांसद न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।
 - (ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं।
 - (ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु, आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति किसी अन्य स्थान पर भी अपनी बैठकें कर सकेगी।

5. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

- (क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
- (ख) समिति के अन्य गैर सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के का. ज्ञा. सं. II/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक

तथा महालेखा परीक्षक, लेखा नियंत्रक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रेणु शर्मा
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2011

विषय :--सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद् और कार्यवाही समिति का पुनर्गठन।

सं. 2-4/2000-ईई.-3--इस मंत्रालय के संकल्प सं. एफ. 2-4/2000-डेस्क (ईई), दिनांक 02.01.2001 और दिनांक 26.08.2003 तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.07.2007 के अनुसरण में तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.10.2009 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा राजनीतिक पार्टियों द्वारा नामित किए मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों के सात वरिष्ठ स्तर के राजनीतिक नेताओं को और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित किए गए तीन संसद सदस्यों को (लोक सभा से दो और राज्य सभा से एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की शासी परिषद् में नामित करती है। भारत सरकार एतद्वारा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की शासी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्तियों को अगले दो वर्ष के लिए नामित करती है।

viii) मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों के सात वरिष्ठ स्तर के राजनीतिक नेता (राजनीतिक पार्टियों द्वारा नामित किए गए)

क) श्री शमीम फैजी, सचिव, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अजायब भवन, 15 कामरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली-110002

ख) श्रीमती सुप्रिया, सुले, संसद सदस्य, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 6 जनपथ रोड, नई दिल्ली-110001

ग) श्री लालू प्रसाद, संसद सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल, 25, तुगलक रोड, नई दिल्ली-110011

घ) श्री नीलोत्पल बासु, सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) केन्द्रीय समिति, ए.के. गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

ङ) श्री सतीश चन्द्र मिश्र, संसद सदस्य, बहुजन समाज पार्टी, सी-1/II हुमायूं रोड, नई दिल्ली

च) श्री कप्तान सिंह सोलंकी, संसद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, 140, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011

छ) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-नामांकन प्रतीक्षित।

ix) तीन संसद सदस्य (लोक सभा से दो और राज्य सभा से एक) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित)-

क) श्री संजय भोई, संसद सदस्य, लोक सभा, 13/601, ईस्ट एंड अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, फेज-I विस्तार, दिल्ली-110096

ख) श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद सदस्य, लोक सभा, 15, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

ग) श्री अविनाश पांडे, संसद सदस्य, राज्य सभा, ए/43, दूसरा तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली

2. सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद में उपर्युक्त संसद सदस्यों का नामांकन निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा:

- (i) सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा पुनः नामित किए जाने के पात्र होंगे।
- (ii) संसद सदस्यों के लिए लागू नियमों और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सदस्य शासी परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।

पी. के. तिवारी
निदेशक

संस्कृति मंत्रालय,

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2011

संकल्प

सं. एफ 9-5/2010-बीटीआई-जी.ओ.आई. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत, केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति अध्ययन संस्थान (सीआईएचसीएस), दहूंग, अरुणाचल प्रदेश के नियमों व विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अनुसूची में दिए अनुसार निदेशक (सीआईएचसीएस) के पद हेतु भर्ती नियम बनाती है।

2. इन नियमों को "केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति अध्ययन संस्थान, दहूंग, अरुणाचल प्रदेश" कहा जाएगा।
3. ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
4. यह आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
5. यह भी आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेषित की जाए।

यशवीर सिंह
अवर सचिव

अनुसूची

निदेशक, केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति अध्ययन संस्थान, दहंग, अरुणाचल प्रदेश के पद
हेतु भर्ती नियमावली

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन—बैंड और ग्रेड पे	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
निदेशक	1 (एक) (2010)	समूह 'क' (अननुसचिवीय)	37,400—67,000 रु. +ग्रेड पे 8700/रु.	लागू नहीं	50 वर्ष से अनधिक

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत/प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जाएगी
7	8	9	10	11
<p>अनिवार्य</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्ध अध्ययन या सामाजिक या प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति या सामाजिक मानव विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि उत्कृष्ट शोध और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित कृतियों या विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में व्यापक अभिस्वीकृत पुस्तकों का साक्ष्य विशेषज्ञता के क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में उपाधि स्तर पर 10 (दस) वर्ष के शिक्षण का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में जिम्मेदार वरिष्ठ पद पर कम से कम 7 (सात) वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान व धारा प्रवाह लिखने और बोलने की योग्यता <p>वांछनीय : हिमालयीय संस्कृति से संबद्ध शैक्षिक, अनुसंधान व व्यावसायिक अनुभव</p>	<p>पदोन्नति : लागू नहीं प्रतिनियुक्ति : आयु : हां शैक्षिक अर्हता : हां</p>	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती से जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केन्द्र सरकार/स्वायत्त निकायों/ विश्वविद्यालयों/संस्थानों के निम्नलिखित व्यावसायिक/संकाय/ अधिकारी :</p> <ol style="list-style-type: none"> नियमित आधार पर सदृश पदाधारी या ग्रेड पे 7600/रु. में 5 वर्ष की नियमित सेवा या इसके समतुल्य या ग्रेड पे 6600/रु. में 8 वर्ष की नियमित सेवा या इसके समतुल्य

चयन समिति	नियुक्त करने वाला प्राधिकारी	नोट
12	13	14
<ol style="list-style-type: none"> बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष-अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा मनोनीत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक सदस्य-सदस्य संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले हिमालयीय संस्कृति या संबद्ध क्षेत्रों में दो विशेषज्ञ-सदस्य संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार में संबंधित विषय की देखरेख करने वाले उपसचिव/निदेशक-सदस्य सचिव 	<p>बोर्ड ऑफ गवर्नर्स</p> <p>नोट: नियम 12.4 (xvi) के अनुसार, प्रथम निदेशक को भारत सरकार के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।</p>	<ol style="list-style-type: none"> अन्यथा अधिक अर्हता प्राप्त उम्मीदवार के मामले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चयन समिति की सिफारिश पर अर्हता या अनुभव की किसी भी शर्त में डील देने का अधिकार होगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच वर्ष होगी जिसे निष्पादन की समीक्षा करने पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सीधी भर्ती के मामलों में कार्यकाल पांच वर्ष होगा जिसे निष्पादन की समीक्षा करने पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 28th March 2011

RESOLUTION

No. E-11015/01/2009-Hindi : In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language O.M. No. II/20015/45/87-O.L. (A-2) Dated 15th March, 1988, the Govt. of India have decided to re-constitute the Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Commerce and Industry in the Department of Industrial Policy and Promotion. Composition and functions etc. of the Committee will be as under :-

I. COMPOSITION

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Minister of Commerce & Industry | Chairman |
| 2. | Minister of State for Commerce & Industry | Vice-Chairman |

II. OFFICIAL MEMBERS

A. Department of Industrial Policy and Promotion

- | | | |
|----|--|------------------|
| 3. | Secretary | Member |
| 4. | Additional Secretary & Financial Adviser | Member |
| 5. | Joint Secretary (Incharge Official Language) | Member-Secretary |

B. Department of Official Language

- | | | |
|----|---|--------|
| 6. | Secretary,
Deptt. of Official Language | Member |
| 7. | Joint Secretary,
Deptt. of Official Language | Member |

C. Attached/Subordinate Offices and Organisations.

- | | | |
|-----|---|--------|
| 8. | Salt Commissioner, Jaipur | Member |
| 9. | Economic Adviser, New Delhi | Member |
| 10. | Chairman, The Tariff Commission, New Delhi. | Member |
| 11. | Chief Controller of Explosives, Nagpur | Member |
| 12. | Controller General, Patent, Design & Trade Marks Registry,
Mumbai | Member |
| 13. | Director, Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore | Member |
| 14. | Director, Central pulp and paper Research Institute, Saharanpur | Member |
| 15. | Director, Indian Rubber Manufacturers Research Association,
Thane | Member |
| 16. | Director General, National Council for Cement and Building
Materials, Ballabgarh, Haryana, | Member |
| 17. | Executive Director, National Institute of Design, Ahmedabad | Member |
| 18. | Deputy Chief, National Manufacturing Competitiveness Council,
New Delhi | Member |
| 19. | Director General, National Productivity Council, New Delhi | Member |
| 20. | General Secretary, Quality Council of India, New Delhi | Member |
| 21. | Chief Controller of Accounts, New Delhi | Member |

III. NON-OFFICIAL MEMBERS

A. MEMBERS OF LOK SABHA

- | | | |
|-----|---------------------|--------|
| 22. | Sh. P.L. Punia | Member |
| 23. | Smt. Sushmita Bauri | Member |

B. MEMBERS OF RAJYA SABHA

- | | | |
|-----|--------------------------|--------|
| 24. | Sh. B.S. Gnanadesikan | Member |
| 25. | Sh. Bharatsinh P. Parmar | Member |

C. REPRESENTATIVES OF THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 26. | Sh. Ashok Argal, M.P. (Lok Sabha) | Member |
| 27. | Dr. Ram Prakash, M.P. (Rajya Sabha) | Member |

D. Representative of Voluntary Hindi Organisations etc. of All India Level.

- | | | |
|-----|---|--------|
| 28. | Shri Mahesh Narayan,
Kendriya Sachivalya Hindi Parishad, New Delhi | Member |
| 29. | Dr. Padmakar Pandey,
Nagri Pracharini Sabha, New Delhi-110067 | Member |

IV. Members Nominated by the Minister of Commerce & Industry,

- | | | |
|-----|---|--------|
| 30. | Shri Sushil Doshi,
Hindi Commentator, Indore (M.P.) | Member |
| 31. | Dr. Keshav Pandey,
Academician & Journalist, Gwalior | Member |
| 32. | Shri Krishan Mohan Singh,
Journalist, New Delhi | Member |
| 33. | Prof. Ashok Chakradhar,
Vice-President, Hindi Academy, Delhi | Member |

V. Members nominated by the Department of Official Language.

- | | | |
|-----|--|--------|
| 34. | ER. Brajesh Pandey,
Vill. Jitwarpur, P.O.- Pipra, P.S.-Govindganj,
Distt. East Champaran (Bihar) | Member |
| 35. | Prof. Roshni Thomas,
TC-4/1901(1), Pandit Colony, Kowdiar, Trivandrum-3, (Kerala) | Member |
| 36. | Shri Arun Upadhyay,
503, Sai Shubham, Geeta Nagar Fase-7,
Mira Road, (East) Thane-401107 (Maharashtra) | Member |

(2) Functions of the Committee

The functions of the Samiti will be to render advice to Department of Industrial Policy & Promotion with regard to the progressive use of Hindi in Official work and

implementation of the provisions of the Official Language Policy laid down by the Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official Language.

(3) Tenure of the Committee

The term of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that :-

- (a) a member who is a member of Parliament shall cease to be the member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;
- (b) ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti;
- (c) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

(4) General

The Headquarters of the Samiti shall be in New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

(5) T. A. AND OTHER ALLOWANCES

- (a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954" amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language, Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L. (Policy-2), dated 03 February, 2006.
- (b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O. M. No. II/22034/04/86-OL(A-2) dated 22.1.1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, U.T. Administrations, P.M. Secretariat, Cabinet Secretariat, Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning

Commission, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Controller of Accounts and all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RENU SHARMA
Joint Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY)**

New Delhi, the 17th March 2011

Subject :—Re-constitution of Governing Council and Executive Committee of National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan.

No. 2-4/2000-EE.3—In pursuance of this Ministry's Resolution No. F. 2-4/2000-Desk (EE) dated 02.01.2001 & 26.08.2003 and notification of even number, dated 02.07.2007 and in continuation of notification of even number dated 01.10.2009, the Central Government hereby nominates the following Seven Senior level political leaders of the main National Parties as nominated by the Political Parties and Three Members of Parliament (two from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha) as nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs in the Governing Council of the National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). The Government of India hereby makes the following nominations on the Governing Council of National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) for the next two years.

- viii) Seven Senior level political leaders of the main National Parties (as nominated by the Political Parties)
 - a) Shri Shamim Faizee, Secretary C.P.I., Communist Party of India, Ajoy Bhawan, 15, Com. Inderjeet Gupta Marg, New Delhi – 110 002.
 - b) Mrs. Supriya Sule, M.P., Nationalist Congress Party, 6, Janpath Road, New Delhi – 110 001.
 - c) Shri Lalu Prasad, M.P., Rashtriya Janata Dal, 25, Tughlak Road, New Delhi – 110 011.
 - d) Shri Nilotpal Basu, Member of the Central Secretariat of the CPI(M), Communist Party of India (Marxist), Central Committee, A.K. Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg, New Delhi – 110 001.
 - e) Shri Satish Chandra Misra, M.P., Bahujan Samaj Party, C-1/11, Humayun Road, New Delhi.
 - f) Shri Kaptan Singh Solanki, M.P., Bharatiya Janata Party, 140, South Avenue, New Delhi – 110 011.
 - g) Indian National Congress – nomination awaited.
- ix) Three Members of Parliament (Two from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha) (nomination by the Ministry of Parliamentary Affairs) –
 - a) Shri Sanjay Bhoi, Member of Parliament, Lok Sabha, 13/601, East End Apartments, Mayur Vihar, Ph.-I Ext. Delhi -110 096.
 - b) Shri Arjun Ram Meghwal, Member of Parliament, Lok Sabha, 15, North Avenue, New Delhi - 110 001.
 - c) Shri Avinash Pande, Member of Parliament, Rajya Sabha, A/43, 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi.

2. The nomination of above Members of Parliament on Governing Council of the National Mission of the Sarva Shiksha Abhiyan shall be subject to the following conditions.

- (i) The Members shall hold office for a term of two years and shall be eligible for re-nomination.

(ii) Members will be entitled to get TA/DA for attending the meetings of Governing Council as per rules applicable to Members of Parliament and instruction issued by the Ministry of Parliament Affairs from time to time.

P. K. TIWARI
Director

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 3rd March 2011

RESOLUTION

No.F.9-5/2010-BTI-G.O.I In exercise of powers conferred by Rules and Regulations of the Central Institute of Himalayan Culture Studies (CIHCS), Dahung, Arunachal Pradesh, an Autonomous Body registered under the Societies Registration Act, 1860, the Central Government hereby frames the Recruitment Rules for the post of Director, (CIHCS), as given in the Schedule.

2. These Rules shall be called "Recruitment Rules for the post of Director, Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung, Arunachal Pradesh".

3. These Rules shall come into force with immediate effect.

4. It is ordered that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

5. It is also ordered that a copy of the Notification be communicated to all the Ministries and Department of the Government of India and to all the State Governments and Union Territories.

YASH VEER SINGH
Under Secy.

SCHEDULE**RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, CENTRAL INSTITUTE OF HIMALAYAN CULTURE STUDIES,
DAHUNG, ARUNACHAL PRADESH**

Name of the post	No. of Post	Classifications	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Director	1 (one) (2010)	Group 'A' (Non-Ministerial)	₹.37,400-67,000 + GP 8700	Not applicable	Not exceeding 50 years

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the cases of Promotion/Deputation	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation	In case of recruitment by promotion/deputation grades from which promotion/deputation to be made
7	8	9	10	11
Essential : <ol style="list-style-type: none"> 1. Doctorate Degree in Buddhist Studies or Sociology or Ancient Indian History and Culture or Social Anthropology from a recognised university. 2. Evidence of outstanding research and published works in national/inter-national journals of repute or as well acknowledged books in the concerned area of specialisation. 3. 10 (ten) years teaching experience at the Degree level at a recognised University/Institution in the area of specialisation. 4. At least 7 (seven) years administrative experience in a responsible senior position at a recognised University/Institution. 5. Knowledge and fluency in written and spoken Hindi and English languages. Desirable : Academic, research and professional experience related to Himalayan Culture.	Promotion: Not applicable Deputation: Age : Yes Educational Qualification : Yes	One year for direct recruits	Direct Recruitment failing which by Deputation	Deputation Professionals / Faculty / Officers of the Central Government/ Autonomous bodies/ Universities / Institutions; i. Holding analogous post on regular basis, Or ii. With 5 years of regular service in post in the Grade Pay of ₹7600/- or equivalent. Or iii. With 8 years of regular service in the post in the Grade Pay of ₹6600/- or equivalent.

Selection Committee	Appointing authority	Note
12	13	14
<ol style="list-style-type: none"> i. Chairperson of the Board of Governors – Chairperson. ii. One member of the Board of Governors nominated by the Board of Governors - Member iii. Two Experts in Himalayan Culture or related areas to be nominated by Ministry of Culture, Govt. of India - Member iv. Deputy Secretary/Director dealing with the subject in the Ministry of Culture, Govt. of India – Member Secretary. 	Board of Governors Note : As per Rule 12.4(xxvi), the first Director shall be appointed with the approval of Government of India	<ol style="list-style-type: none"> i. The Board of Governors shall have the power to relax any of the qualifications or experience on the recommendation of the Selection Committee in case of candidate otherwise well qualified. ii. Period of deputation shall be five years which may be extended by five year by the Board of Governors, on review of performance. iii. The tenure in the case of direct recruits shall be five years which may be extended by five years by the Board of Governors on review of performance.